SBFC Finance Limited SBFC Registered Office:- Unit No. 103, First Floor, C&B Square, Sangam Complex, Village Chakala,

Andheri- Kurla Road, Andheri (East), Mumbai-400059.

POSSESSION NOTICE (As per Rule 8(2) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of SBFC Finance Limited under the Securitization, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued Demand Notices upon the Borrowers/Co-borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/Co-borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Co-borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates.

The Borrower/Co-borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of SBFC Finance Limited.

Name and Address of Borrowers	Description of Property(ies) &	Amount demanded in
& Date of Demand Notice	Date of Possession	Possession Notice (Rs.)
1. Rajeev Kumar, 2. Mykal, 3. Seema, their are having address at R2-135, Gali no 19, Sadh Nagar, Palam Col-ony, New Delhi - 110045. Demand Notice Date: 3rd August 2021 Loan Account No. 27300000437DH PR00692332	ALL THE PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING PROPERTY BEARING NO RZ-10-B/12A, AREA ADMEASURING 113.4 SQ YARDS OUT OF KHASRA NO 616, SITUATED IN ABADI KNOWN AS KAILASH PURI, PALAM COLONY, DELHI, NEW DELHI Date of Possession: 16th July, 2024	Thirty One Lakh(s) Sixty Six Thousand Eight

Sd/- (Authorized Officer), SBFC Finance Limited. Place: New Delhi Date: 19-7-2024

AU SMALL FINANCE BANK	Α
	759

secured assets.

Place: DELHI

U SMALL FINANCE BANK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK)

Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer Road, Jaipur - 302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002 As the loan account became NPA therefore the Authorized officer under section 13(2) of "The Securitisation and Reconstruction of Financia

Mortgagers/Guarantors (collectively referred as "Borrowers") as given in the table. According to the notice if the borrowers do not deposit th entire amount within 60 days, the amount will be recovered from auction of the mortgage properties/secured assets as given below Therefore you the borrowers are informed to deposit the entire loan amount along with future interest and expenses within 60 days from the date of demand notice, otherwise under the provisions of 13(4) and 14 of the said Act, the Authorized officer is free to take possession for sale of the mortgage properties/Secured assets as given below, Borrowers to note that after receipt of this notice, in terms of Section 13(13) of the Act, 2002, you are prohibited and restrained from transferring any of the secured assets by way of sale, lease or otherwise, without prior written consent of the secured creditor. Borrowers attention are attracted towards Section 13(8) r/w Rule 3(5) of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Act that the borrowers shall be entitled to redeem their secured asset upon the payment of the complete outstanding dues as mentioned below before the publication of auction notice, which thereafter shall cease to exist

Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002" had issued 60 days demand notice to the borrowers/co-borrowers,

Name of the Borrower/ Co-Borrower /Mortgagor/Guarantor/ Loan A/c No.	Date and Amount of Demand Notice Under Sec. 13(2)	Description of Mortgaged Property
(A/c No.) L9001060118970992 & L9001061121804792 N P Engineering Works (Borrower), Smt.Nathuni Pandit (Co-Borrower), Mahesh Kumar (Co-Borrower), Suresh Kumar (Co-Borrower)	15-Jun-24 Rs. 1560293/- Rs. Fifteen Lac Sixty Thousand Two Hundred Ninety-Three Only & Rs. 158404/- Rs. One Lac Fifty-Eight Thousand Four Hundred Four Only As on 11-Jun-24	Property Situated At- Khasra No 85 25 86 21, Plot No. 4, Vill- Ballabgarh, Dist-Faridabad, Haryana Admeasuring 113.3 Sqyds
(A/c No.) L9001060720276928 Vikas Kumar (Borrower), Rakesh (Co- Borrower), Pooja Enterprises (Co- Borrower), Narender Sharma (Co- Borrower), Ajay Singh (Co-Borrower)	14-Jun-24 Rs. 1242830/- Rs. Twelve Lac Forty-Two Thousand Eight Hundred Thirty Only As on 11-Jun-24	Property Situated At- Khasra No- 105, Plot No- 488 B, Block- B, Vill- Sangam Vihar, Harbast- Dharouti Khurd, Dist- Ghaziabad, Uttar Pradesh Admeasuring 50 Sqyds
(A/c No.) L9001060124863721 Unite Deals Solution Private Limited Through Its Director Surajit Rout (Borrower), Surajit Rout (Co-Borrower), Abhishek Bhattacharya (Co-Borrower)	21-Jun-24 Rs. 1404032/- Rs. Fourteen Lac Four Thousand Thirty-Two Only As on 21-Jun-24	Property Situated At- Khasra No- 82/22, Plot No- 33, Flat No- G-1, Rz G-33, Gf Without Roof, Palam Mahavir Encalve, Dwarka Soth West Delhi, Delhi. Admeasuring 80 Sq.Yds.
(A/c No.) L9001060131669717 Sanat Roy (Borrower), Saurabh Rai (Co- Borrower)	14-Jun-24 Rs. 695998/- Rs. Six Lac Ninety-Five Thousand Nine Hundred Ninety-Eight Only As on 11-Jun-24	Property Situated At- Khasra No 482Mi, Village Of Haldoni, Pargana Dadri, Tehsil- Dadri District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh Admeasuring 47 Sq.Yds
(A/c No.) L9001060131684969 R K Transport Through It'S Proprietor Sachin (Borrower), Yogesh Kumar (Co- Borrower), Smt.Rajan (Co-Borrower), Sachin (Co-Borrower), Rajender Kumar (Co-Borrower), Naresh (Co-Borrower)	21-Jun-24 Rs. 5006903/- Rs. Fifty Lac Six Thousand Nine Hundred Three Only As on 20- Jun-24	Property Situated At Khewat/Khata No 92/97 ,Mu No 32, Killa No 21/2/1(1-0)_, Mouja - Mohammadpur, Sub Teshil - Kadipur, Dist - Gurugram, Haryana Admeasuring 145 Sq.Yrd

Pu	ıblic Notice For	E-Auction Cum Sale (Appe	ndix - IV A) (Ru	le 8(6))					
Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate									
	Office at Plot No.98,Udyog Vihar, Phase-IV,Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at:- " Office No 1, First Floor, Mahaluxmi Metro								
		ziabad, Uttar Pradesh - 201010 "under the							
		(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized (
		issued U/S 13(2) of the Act in the following lo							
		ASIS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" f		s dues, The Sale will be done					
by the undersigned t	hrough e-auction platform p	provided at the website: www.iiflonehome.co	m						
Borrower(s) /	Demand Notice	Description of the Immovable	Date of Possession	Reserve Price					
Co-Borrower (s)	Date and Amount	property/ Secured Asset							
/ Guarantor(s)	10-Jan-2024	All that part and parcel of the property bear-		Rs.12,17,000/-					
1.Mr. Manvir Singh	Rs. 18,94,994/- (Rupees	ing Flat No Ff-3, First Floor , Without Roof	Total Outstanding as	(Rupees Twelve Lakh					

Date: 18-07-2024

Authorised Officer AU Small Finance Bank Limited

Date of Inspection of property 02-Aug-2024 1100 hrs -1400 hrs Mode Of Payment:- EMD payments are to be made vide online			EMD Last Date 05-Aug-2024 till 5 pm. mode only. To make payment		07-Aug-202	me of E-Auction 4 1100 hrs-1300 hrs. //www. iiflonehome.com and
3. Mrs. Uma 4. Manvir Singh (Prospect No IL10131663)	Bid Increase Amount	201010 Area Property Ty	Tehsil Loni, Ghaziabad Up , Admeasuring (In Sq. Ft.): pe: Saleable_Area, Area g Property Area: 600.00,		ees Nineteen Lakh ety One Thousand Hundred Thirteen Only)	(EMD) Rs. 1,21,700/- (Rupees One Lakh Twenty One Thousand Seven Hundred Only)
2. Mr. Manish Kumar	Thousand Nine Hundred	57,& D58, SIf	, Front Side , Lhs) , Plot No-D Ved Vihar, Village Sadullabad,		Date 04-Jul-2024 Rs. 19,91,513/-	Seventeen Thousand Only) Earnest Money Deposit

pay through link available for the property/ Secured Asset only.

Note: Payment link for each property/ Secured Asset is different. Ensure you are using link of the property/ Secured Asset you intend to buy vide public For balance payment, upon successful bid, has to pay through RTGS/NEFT. The accounts details are as follows: a) Name of the Account:- IIFL Home

Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Chartered Bank, c) Account No:-9902879xxxxx followed by Prospect Number, d) IFSC Code:-SCBL0036001, e) Bank Address: Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001 **TERMS AND CONDITIONS:-**For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www. iiflonehome.com well in

advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 min-

utes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75%

of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of payment. The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property. Bidders are advised to go through the website https://www.iiflonehome.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed

For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:- care@iiflone For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc. call IIFL HFL toll free no.1800 2672 499 from 09:30 hrs

terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings.

to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:- care@iiflonehome.com. 8. Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical

possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances. Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law. 10. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and

the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale. 11. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dis-

pute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.

15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE RULE 9 SUB RULE (1) OF SARFAESI ACT, 2002 The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of

Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited.

Place: Ghaziabad, Date: 19-July-2024

PNC INFRATECH LIMITED



NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Transfer of equity shares to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Authority

In terms of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("Act"), any money transferred to the Unpaid Dividend Account of the Company, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven (7) years from the date of such transfer shall be transferred to the IEPF, a fund established by Central Government under Section 125 of the Act. Further, pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Act read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") as amended from time to time, all shares in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for seven (7) consecutive years or more shall also be transferred by the Company to the Demat Account of IEPF Authority.

Individual communication has been sent to the registered address of all the shareholders whose dividends are lying unclaimed for seven consecutive years i.e. from FY 2016-17 till date and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority under the IEPF Rules. The details of such shareholders have been uploaded on the website of the Company at https://www.pncinfratech.com /financials.html#unpaid-unclaimed-dividend.

Shareholders are requested to forward the requisite documents as per above-mentioned communication, to the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Link Intime India Private Limited to claim the unclaimed dividend for FY 2016-17 and onwards. In case the dividend(s) are not claimed by October 20, 2024, necessary steps will be initiated by the Company to transfer the unclaimed dividend along with the underlying shares to IEPF Authority, in the manner provided under IEPF Rules, without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the shares so transferred to IEPF.

accruing on such shares, if any, once transferred to IEPF can be claimed back only from IEPF Authority by following the procedure prescribed in this regard on the website **i.e.www.iepf.gov.in.** For any queries in respect of the above, shareholders may contact the Company at complianceofficer@pncinfratech.com or Registrar and Share Transfer Agent, Link In time India Private Limited at Noble Heights, 1 Floor, NH-2, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi – 110 058, Telephone: +91 11 49411000, E-mail: delhi@linkintime.co.in., Website:

Please note that both the unclaimed dividend and the underlying shares including all benefits

www.linkintime.co.in.

Date: 18th July, 2024

Place: Agra

For PNC Infratech Limited Sd/- Tapan Jain

By Order of the Board of Directors

Company Secretary & Compliance Officer M. No: A22603

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

PICICI Bank Branch Office: ICICI Bank Ltd., Plot No. 23, Shal Tower, 3rd Floor, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi- 110005

of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices to the borrower(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the Notice within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

Having failed to repay the amount, the Notice is issued to the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described below, by exercising powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealings with the property will be subject to charges of ICICI Bank Limited.

The Authorised ICICI Bank Officer under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement

Sr. No.	Name of the Borrower(s)/ Loan Account Number	Description of Property/ Date of Symbolic Possession	Notice/ Amount in Demand Notice (Rs)	Branch
	Nitin Varma/ Rani Verma/ LBAGR00005976216	Housing Having Nagar Nigam No. 1/183-A, Situated At B.M. Sarkar Road, Civil Lines, Ward Hariparwat, Tehsil & District Agra, Uttar Pradesh- 282001/ July 12, 2024	March 18, 2024 Rs. 36,67,953/-	Agra
- 3	Agarwal/	Flat No. 105, First Floor, Situated At Nagar Nigam No. 22/A.R./24/105, Wakeanupam Royale 24 Old Vijay Nagar Colony, Tehsil and District Agra, Uttar Pradesh- 282001/ July 12, 2024	April 19, 2024 Rs. 46,04,193/-	Agra
3,	Neeraj Bandil/ Rekha Bandil/ TBAGR00006213698	Flat No. 201 & 202, 2nd Floor, Built on Plot No. 76, Nagar Nigam No. 32A/D660A/76, Gopal Ji Ashiyana, Balaji Nagar, Village Ghatwasan, Ward Hariparvat, Tehsil & District Agra, Uttar Pradesh- 282005/ July 12, 2024	February 28, 2024 Rs. 41,90,876/-	Agra

The above-mentioned borrowers(s)/guarantors(s) is/are hereby issued a 30 day Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold after 30 days from the date of publishing this Notice, as per the provisions under Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Date: July 19, 2024 Sincerely Authorised Signatory For ICICI Bank Ltd

Possession Notice (For Immovable Property) Rule 8-(1) Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (II FL-H FL.) under

the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13/12 mad with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower/C Borrowers mentioned herein below to repay the amount notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Rules. The borrower in particular and he public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of NFL HFL for an amount a mentioned herein under with interest thereon. The borrowers attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower dears the dues of the "HEL" through cruit he leasts of the Act, if the borrower dears the dues of the "HEL" through cruit he leasts of the Act, if the borrower dears the

Name of the	Description of the Secured Asset (Immovable Property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of	
Borrower(s)/ Co-Borrower(s)	All that piece and parcel of property bearing: Built Up Propety Bearing No 79-d, Part of Property Bearing No-79, Situated in The Area of Village		Notice Notice	Posse- ssion
Mr. Nand Kishore M/s Nand Kishor Drycleaner, Mrs. Seema Kanojia, Prospect No 972632, 977463, IL10367177	Khureji Khas, In The Abadi of Ram Nagar, Krishan Nagar, Ilaqa Shahdara, East Delhi, 110051, Delhi, India Area Admeasuring (in Sq. Ft.): Property Type: Land_area, Carpet_area, Built_up_area Property Area: 450.00, 648.00, 810.00	Four Hundred and Three Only), 977463 is ₹ 112899.00/- (Rupees One Lakh Twelve Thousand Eight	06-Dec- 2023	15-Jul- 2024
Miss. Madhu Mr. Nanak Chand Mrs. Usha Devi Prospect No. IL10291172	All that piece and parcel of Flat No. 304, Third Floor, Portion (Back Side), Built on Portion of Property Bearing No E-86, cut of Kh No. 419/305, Situated in Abadi of E-block, New Ashok Nagar, Vill. Chilia Saroda Bangar, Illaqa Shahdara, Delhi, India, 110096 Area Admeasuring (in Sq. Ft.): Property Type: Built_up_area, Carpet_area Property Area: 360.00, 288.00	₹ 1852522.00/- (Rupees Eighteen Lakh Fifty Two Thousand Five Hundred and Twenty Two Only)	08-Apr- 2024	15-Jul- 2024
Mr. Asheesh Mrs. Chhaya Prospect No. IL10348311	All that piece and parcel of Pat No-SF-3, Second Floor, Without Roof Rights, Front RHS, Plot No F-77-A. Khasra No 1468, Balaji Endave, Village Raispur, Pargana Dasria, Ghaziabad, Ultar Pradesh, 201002 Area Admeasuring (in Sq. Ft.): Property Type: Area_admeasuring Property Area: 430.00	₹ 1425320.00/- (Rupees Fourteen Lakh Twenty Five Thousand Three Hundred and Twenty Only)	08-Apr- 2024	15-Jul- 2024
Mrs. Deepa Dhangar	All that piece and parcet of Nagar Nigam No. 11G/DP/K1755/2, Comprised in Khasra No. 1755. Situated at Banke, Durgeshpuri Nagla, Naraich, Etmadpur. Agra, Uttar Pradesh, India. 282006 Area Admeasuring (in Sq. Ft.): Property Type: Land. Area, Built_Up_Area, Carpet_Area Property Area: 783.00, 944.00, 755.00	₹ 2085785.00/- (Rupees Twenty Lakh Eighty Five Thousand Seven Hundred and Eighty Five Only)	10-May- 2024	15-Jul- 2024
Savita, Mrs. Neelam Sharma, Amar Food Products, Prospect	All that piece and parcel of House No. 112, Type - B, Built On Plot No. B-57, Khasra No. 28-41, 822, Situated At Mauza Baipur Banke, Garpati City, Tehsii And District Agra, Ultar Pradesh, India, 282001 Area Admeasuring (in Sq. Ft.): Property Type: Land area, Built up_area, Carpet_area Property Area 450.00, 450.00, 382.50	₹ 1787796.00/- (Rupees Seventeen Lakh Eighty Seven Thousand Seven Hundred and Ninety Six Only)	09-May- 2024	15-Jul- 2024

r. further details please contact to Authorisd Officer at Branch Office: Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marq, Naiafg. Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi or Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-TV Gurgaon, Haryana. Sd/-, Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limited Place : DELHI | Date : 19-07-2024

Public Notice For E-Auction For Sale of Immovable Properties

Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plot No. 98, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at "30/30E, Upper Ground Floor, Shivaji Marg, New Delhi - 110015" Under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act") Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) or he Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS BASIS and WITHOU" RECOURSE BASIS" for realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the web

Description of the Immovable

property/ Secured Asset

All that part and parcel of the property

Demand Notice

18-Jun-2021

Date and Amount

Co-Borrower (s)

/ Guarantor(s)

100	Date of Inspection of property 20-Aug-2024 1100 hrs -1400 hrs			EMD Last Date 22-Aug-2024 till 5 pm.			me of E-Auction 4 1100 hrs-1300 hrs.
	733851)	(Rupees Forty Thousand Only)	(Area admea	rea admeasuring 535 sq. ft.)		Hundred And Forty Two Only)	Eight Thousand Five Hundred Only)
	(Prospect No.	Eighty One Only) Bid Increase Amount Rs.40.000/-	Block B, Uttam Nagar Nawada Mohan Garden ,Delhi, 110059 India		(Ru	Rs. 20,32,842/- pees Twenty Lakh rty Two Thousand	Earnest Money Deposit (EMD) Rs.2,98,500/- (Rupees Two Lakh Ninety
	2. Mrs.Gargi Arora		Floor Without	t Roof / Terrace Rights, area 68 sq.yrds Khasra no.481,	On	Date 04-Jul-2024	Five Thousand Only)

pay through link available for the property/ Secured Asset only. Note: Payment link for each property/ Secured Asset is different. Ensure you are using link of the property/ Secured Asset you intend to buy vide public

For balance payment, upon successful bid, has to pay through RTGS/NEFT. The accounts details are as follows: a) Name of the Account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Chartered Bank, c) Account No:-9902879xxxxx followed by Prospect Number, d) IFSC Code:-SCBL0036001, e) Bank Address: Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001 **TERMS AND CONDITIONS:-**

For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.iiflonehome.com well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the pay-

utes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of payment.

The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property.

Bidders are advised to go through the website https://www.iiflonehome.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings. For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:- care@iiflone-

home.com, Support Helpline no.1800 2672 499.

For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc. call IIFL HFL toll free no.1800 2672 499 from 09:30 hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:- care@iiflonehome.com.

possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.

10. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.

pute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final. STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of

ender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost Place:- Delhi, Date: 19-July-2024 Sd/- Authorised Officer, IIFL Home Finance Limited.

Date: 18.07.2024

HDFC Bank Limited

Branch: The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marg, New Delhi-110 067 Tel: 011-41596676/568, CIN L65920MH1994PLC080618, Website: www.hdfcbank.com

NOTICE FOR REMOVAL OF PERSONAL BELONGINGS/ HOUSEHOLD GOODS

Sr. No.	Name of Borrower (s) / Legal heir (s) / Legal Representative(s)	Date of Demand Notice	Date Of Possession	Description of Secured Asset(s) / Immovable Property (ies)
1.	MR RAVISH MALHOTRA AND MR RAMESH KUMAR MALHOTRA	13-APR- 2017	12-JUN- 2018	PLOT NO. 143, ADMEASURING 418.17 SQ MTRS WITH HOUSE CONSISTING OF 1 ROOM, 1 HALL, 1 KITCHEN, 1 TOILET, SITUATED AT PP TOWN BUILT UP, AGRA MATHURA HIGHWAY, AGRA, UTTAR PRADESH AND CONSTRUCTION THEREON PRESENTAND FUTURE

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of HDFC Bank Limited (erstwhile HDFC Limited having amalgamated with HDFC Bank Limited by virtue of a Scheme of Amalgamation approved by Hon'ble NCLT-Mumbai vide order dated 17th March 2023) (HDFC).

This Public Notice is issued in view of the fact that HDFC has not been able to communicate establish contact with the aforesaid Borrower (s) / Legal heir(s) / Legal Representative(s) at his / her / their last known address as per HDFC's records. Whereas the Authorised Officer of HDFC in exercise of powers conferred under Section 13(2) of

the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (SARFAESI Act) has issued Demand Notice (s) to the Borrower (s) / Legal heir(s) / Legal Representative(s) on the dates mentioned above. On the Borrower (s) / Legal heir(s) / Legal Representative(s) failure to comply with the said

Demand Notice (s) within the period set out therein, the Authorized Officer of HDFC has taken over possession of the immovable property (ies) / Secured Asset (s) more particularly described in the said Demand Notice (s), under Section 13 (4) of the SARFAESI Act read with Rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on the dates mentioned above. At the time of taking over possession of the said immovable property (ies) / Secured Asset (s), the

Authorised Officer of HDFC has drawn up an inventory of personal belongings and household goods lying therein, copy whereof can be collected from the undersigned on any working day during office hours. In the circumstances, Notice is hereby given, to the said Borrower (s)/ Legal heir(s) / Legal

Representative(s) to forthwith remove the personal belongings / household goods lying in the aforesaid immovable property (ies) / Secured Asset (s)) within 5 (Five) days from the date hereof, failing which the Authorised Officer will have no other option but to remove the personal belongings/household goods and dispose off /deal with it in the manner as may be deemed fit, entirely at the Borrower (s) / Legal heir(s) / Legal Representative(s) risk as to cost and consequences, in which event, no claim will be entertained in this regard in future. For HDFC Bank Ltd.

Place: Delhi NCR Authorised Officer

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, कोटद्वार (पौडी गढवाल) ई-मेल: ee.cd.pjnkot@gmail.com पत्रांक 2358 / निविदा / 105 दिनांक 18.07.2024

"ई-निविदा सूचना"

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, कोटद्वार के पत्रांक 2357 / निविदा / 104 दिनांक 18.07.2024 द्वारा राज्य सैक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद पौडी के विकासखण्ड द्वारीखाल/दगड़डा/जयहरीखाल हेत् निम्न पम्पिंग पेयजल योजना के रखरखाव के कार्य हेतु राज्य सरकार (ग्रामीण) की वैबसाइट http/ www.uktenders.gov.in के माध्यम से दिनांक 19.07.2024 से दिनांक 02.08.2024 तक ई-निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं, निविदाओं की नियम शर्ते उपरोक्त वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है:-1. विकासखण्ड द्वारीखाल / द्गड्डा / जयहरीखाल – भैरवगढी ग्राम समूह पन्पिंग पेयजल

योजना के रखरखाव कार्य। अधिशासी अभियन्ता

GOODLUCK INDIA LTD. Regd. Off: 509, Arunachal Building Barakhamba Road,

Connaught Place, New Delhi -110001 Website: www.goodluckindia.com | E-mail: goodluck@goodluckindia.com

CIN: L74899DL1986PLC050910 NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE As per section 46 and other provisions of the Companies act, 2013 and rules made there

under, it is hereby notified for all concern that the following Share Certificate are reported to have been lost and there is request for issue of duplicate share certificate. Particulars are as under:

S.No. Folio No. Name of Shareholder | Certificate No. Distinctive No. No. of Shares 0000898 NITA AGARWAL 599501-Kindly note that if no objection is received by the company within 15 days from the date of

publication of this notice, duplicate Share Certificates/ Letter of confirmation, would be issued. For Goodluck India Limited

(Abhishek Agrawal)

Company Secretary

CHAITANYA AGRAWAL

1968941-1969040

Date: 17.07.2024

CRANEX LIMITED CIN: L74899DL1973PLC006503

Registered Office: 9, DDA Market, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Corporate Office: 57/1, Industrial Area, Site-IV, Sahibabad (U.P.)-201010 E mail: investors@cranexltd.com, Website: http://www.cranexltd.com BSE Script Code: 522001 ISIN: INE608B01010 NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificate(s) issued by the Company are reported lost/ misplaced by the shareholder. The shareholder has thereof applied to the Company for the issuance of duplicate share certificate and the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) to the below mentioned person unless a valid objection is received by the company within 15 (Fifteen) days from the date of publication of this notice. No claim will be entertained by the company with respect to the original share certificate(s) subsequent to the issue of duplicates thereof. Name of Share holder Folio No. Certificate No. Distinctive Nos.

	CONTRACTOR OF STREET					
	2 Personal Princers	From	To	From	To	shares
ratima Pentha Behera	0090790	45702	46032	4541101	4574200	33100
ny person who has/have ith all supporting docum						

valid and legitimate claim is received within 15 (Fifteen) days from the appearance of this notice, the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) to the person listed above. Thereafter any person dealing with such share certificate(s) will be doing so solely at his/her own risk as to costs and consequences and the Company shall not be responsible for it in any manner. FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF CRENEX LIMITED

Place: Ghaziabad Date: 18th July, 2024

Place: Ghaziabad

WHOLETIME DIRECTOR DIN: 05108809



Bai Yadav and Dinesh Yadav

33575 Anil Ku Sindwani (New Name

as Anil Kumar Sindwani)

Bharat Rasayan Limited Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi-110008.

CIN: L24119DL1989PLC036264 Email: investors.brl@bharatgroup.co.in Website: www.bharatgroup.co.in

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

ost/misplaced/stolen and the registered shareholders/claimants therefore have

requested the Company for issuance of duplicate share certificates in lieu of lost share

Notice is hereby given that the following share certificates have been reported to be

Name of the No. of Distinctive Nos. Shareholders / Claimants Nos. Shares (From - To) 21257 N Babita Kumari Jain (Deceased). 25445 3870841-3870940 applied by her legal heir N Vimal Kumar Jain 27141-27142 4040441-4040640 22705 Jitendra Patidar 200 15183 Bhagawan Yaday (Deceased) 18387-18388 200 3165041-3165240 applied by his legal heirs Mira

Any person(s) who has/have and claim(s) in respect of the aforesaid share certificates should lodge the claim in writing with us at the abovementioned address within 15 days from the publication of this notice. The Company will not thereafter be liable to entertain any claim in respect of the said share certificates and shall proceed to issue the duplicate share certificates pursuance to Rule 6 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014.

6426

For BHARAT RASAYAN LIMITED Sd/-

New Delhi July 18, 2024

(Nikita Chadha) Company Secretary Memb. No. FCS10121

UNIMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED RO: N.G. 12 & 13 Ground Floor, North Block, Manipal Centre, Dickenson Road, Bangalore - 560 042. CIN No.U85110KA1995PLC018175

PUBLIC NOTICE

This is to inform the Public that Auction of pledged Gold Ornaments will be conducted

by UNIMONI FINANCIAL SERVICES LIMITED on 23.07.2024 at 10:00 am at the respective centers given below. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Loan Accounts of our various Customers who have failed to pay their dues. Our notices of auction have been duly issued to these borrowers. The Gold Ornaments to be auctioned belong to Overdue Loan Accounts of our various Customers mentioned below with branch name.

Auction Centre Address & Loan Nos: DARBHANGA (DHA - Seth Complex, Infront Of Citnorth Mirzapur Chowk, Mirzapur Road, Darbhanga -846004, Contact no : 9386826049) 2097520. GAYA(GYA -47, Swarjyapuri Road, Near Bharat Sewa Sang, Opp. Lic - Ii Office, Gaya-823001, Contact -9386826046) 2075257, 2078881, 2078987, 2100198, MADHUBANI (MBI - First Floor, Shree Mbp Plaza, Main Road, Bata Chowk, Madhubani -847211, Contact no : 7356607268) 2054486, 2056154, 2041696, 2076810, 2077744, 2078839, 2079061, 2079400, 2038403, 2081634, 2092935, 2099888. PATNA (PAA - Ground Floor, No. G1, Emarat Firdaus Complex, Exhibition Rd, Patna -800001, Contact no: 9334623137) 2075949, 2020910, 2023017, 2081675. PHULWARI (PWI - Mr Complexnh 98, Phulwari Sherif, Main Road, Phulwari - 801505, Contact no: 9304460322) 2097886, 2096525. SITAMARHI (STI - First Floor ,Ds Tower,Cinema Road, Sitamarhi -843302, Contact no :7356607263) 2018197, 2041323, 2041957, 2078356, 2079863, 2082130, 2082558, 2094618. BALLIA (BIA - Building No 15. Panni Tanki Road, before Church Cutra. Ballia -277001, Contact no : 9305006705) 2067997, 2018052, 2018107, 2081928, 2075285, 2023145, 2041253, 2065666, 2077270, 2077429, 2077676, 2078609, 2098449, 2081654, BETTIAH (BTH -Railway Station Chowk Chowkinfront Of Relaince Petrol Pumsupriya Road, Bettiah -845438, Contact no : 7091091614) 2018519, 2072791, 2074469, 2074869, 2072330, 2074852, 2072178, 2072738, 2075452, 2019190, 2074133, 2058612, 2077636, 2078560, 2079178, 2077679, 2080981, 2081458, 2095974. CHAPRA(CPA - 1St Floor, Gukul Dairy Complexsri Nandan Path, West Municipal Chowk, Chapra-841301, Contact no : 9386826053) 2057422, 2040198, 2059860, 2059893, 2059965, 2098038, 2077905, 2098376. GOPALGANJ (GOP -First Floor, Vimala Complex, Hospital More, Ambedkar Chawk, Gopalganj -841428, Contact no :9334628566) 2023862.

Canara Bank , Mirganj -841438, Contact no : 9386826050) 2018864. MOTIHARI(MOT - First Floor, Old LIC Compound, Madhubhan Chawani Chawkmina Bazar, Motihari-845401, Contact no : 9386899352) 2018451, 2037382, 2075100, 2074527, 2073353, 2075764, 2074756, 2040560, 2041908, 2058805, 2059916, 2077912, 2079995, 2096623, 2093068, 2088409, 2098003, 2098184, 2102851, 2103114. MUZAFFARPUR(MFR - Al-Tauhid Tower, Juran Chapra Main Road, Muzaffarpur-842001, Contact no: 9304005111) 2019721, 2072081, 2075519, 2022056, 2023772, 2059647, 2077100, 2078730,

MIRGANJ (MRJ - 1267, Al Ansari Market, hathua Main Road, Near

2079067, 2079971. SIWAN (SIW - First Floor, Janaki

Complex, Rajendara Path, Siwan -841226, Contact no: 9308839005), Sd/-2039878, 2019818, 2074232, 2022034, 2022642, 2078565. (Reserves the right to alter the number of accounts to be

auctioned &/ postpone / cancel the auction without any prior notice.) New Delhi

financialexp.epapr.in

Regd. Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai- 400013

Mode Of Payment:- EMD payments are to be made vide online mode only. To make payments you have to visit https://www. iiflonehome.com and

Reserve Price

Rs. 29,85,000/- (Rupees

ment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 min-

Date of Physical

Possession

31-May-2024

. Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical

1. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dis-

HDFC BANK

देश

कोर्ट 22 जुलाई को सेंथिल बालाजी पर आरोप तय करेगा

कार्याला : प्लार सं. १६, केन्स-IV, उत्तीत विकार, कुरवास, प्रशिवसा ।

मान : हिल्ली, हिनाना : १४,०७,३०३४

दिनांकरू 19/07/2024 स्थानः अम्बाला

चेन्नई, 18 जुलाई (भाषा)। तमिलनाडु के चेन्नई में एक सत्र न्यायालय धनशोधन के एक मामले में 22 ज़ुलाई को पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजों के खिलाफ आरोप तय करेगा। बालाजी को पिछले वर्ष ईडी ने गिरफ्तार किया था। प्रधान संत्र न्यायाधीश एस अली ने अभियोजन पक्ष को आरोप तय किए जाने वाले दिन द्रमुक नेता को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष ने गुरुवार को मामले की सुनवाई शुरू होने पर बालाजी को केंद्रीय पुझल जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया।

क्षेत्र के लिए आईआईएपएफ एजेटर या त्यान अधिनेपम वर्षी प्रतिन "अद्योजाईएमएल	। राह्मारा विशेष रूप में अर्थरार की रूप बनारायान्य को राज्यित के माथ किसी प्रकार का संवाधात्र न व राह के अभिनोत्र का विषय होगा। हो जान (3 को उपनाह (8) के प्रकाशनों को ओर अनुस्ट किया जात है, पटि करोदर विशो स अन राज्यरकाल" के बक्तमों की अरा कर रेख हैं तो "अर्द्धश्रद एक्सन राज्यरकाल" हार प्रतिभूव अर्दिक्तों राह" दान कीं कटम नहीं उदाय कार्यक।	रूप हेनु विश्वतित लिक्ष से पूर्व किसी भी समय समस्त	लगते, प्रचार	t tot their s
मार्थकार् में)/मार्थ-	प्रतिपृत वार्तित (अधार सम्पति) बा विद्यास	কুল ৰকাৰ্য মহি (%.)	10 (to -100) 17 (to -100) 1 (100) 1 (100)	wee
भागेतात् है। भा नम	अवस्थितिक संपत्ति कर समान चारः निर्वित लंबीन संख्या २०-सं, लंबीन संख्या २० का विस्तार, साम स्थानित काम के क्षेत्र में निका, सब जार, कुम्म जार, प्रथमका सकटर, पूर्वी टिटर्सी, 150051, दिस्ती,	973632 में ह. 1975403.00:-(एपमें अवस्त लाख पनवनर कमा चेर मी तीन साथ), 977463		करने की विश्वि
धी सन् किशी। गामां नन्द विश्वीत इंडोक्टीरर, श्रीवती गीमा वर्नीडेप, अर्थान्त न १७७३८, ३७७४८३, IL18367177	चाल भी उपचरी में रिमल क्षेत्ररात सब (भर्त परेट में)। रोपीत का उपना: वृत्रि शेष, कारोट शीख, निर्मेत क्षेत्र संगीत का क्षेत्रमना: 450,00,648,00,832,00	में व. 113890,001-(रुपये एक शास कात हाता अन्त सी जिन्दानये सहा) श्रम क्षां3567177 में व. 591622,001-(रुपये पीच शास क्षांयाची हाता क्षां सी यसीच पाव)	100000000000000000000000000000000000000	15-39-18 2024
मुखी मधु श्री वारचा पर धीमती ज्या देखी धीमती ज्या देखी धीमती ज्या देखी धीमती ज्या देखी	मतेर संप्रक 304, तीमी मॉबन, थान (चेड़े भी ओर) का सम्मान थान, संबंधि में ई-56 के हिस्से पर विकित करात रोकता 410-205 के हैं, ई-व्यक्ति, ग्यू उसकेर तरर, एवजाईएल विका प्रतित्व खोगा, उनका प्रकारत, दिल्ली, चान, 1100% को अवन्यों में निवत बेडफल मान (वर्ष पीट में): ग्रेगीन का प्रकार निर्मित आईमें ब्रेड, बताचेर प्रतिय संबंध 260,00,286.00	 1852522,003 - (रुपने अवाला लाख बावन तजल मीच की बाईम नाम) 	08-460H 2024	15- पुरवर्ग- 2024
श्री आणीम श्रीमती (तथा पीरनीयत में III.10548311	फ्लैंट नंबर प्रमाण -3, हुवर्त मीजल, विक श्रंत के अधिकार, मामने अग्राप्ताय, प्लीट नंबर एक 77-ए खरला नंबर 1465, फराजी गजलेच, शेंच राजीनम, मामना हामना, मीजियाबाट, उसर प्रदेश 201002 का सम्बद्ध पाए, शेंच माम (चर्च परेट में)। राजीन का प्रकार, शेंच माम प्राप्ति शेंच 430,00	वः १४२५३२०,०३:-(रम्पवे प्रदेश लाखा पण्यीस सञ्चय तीत जी चीच मात्र)	06- आग्रेस 2024	15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15-
वी मुकेश वर्धम अंध्ये दीवा बंगम पृत्र अमजी दाता बंगमेंबर से IL.10287827	नगर निश्म नंधर, ११ जो । तीयों / के १७५५ / ३ का मुसास भाग, खुल्ल नंधर १७५६ में श्राम्यल, खाँक पुर्वेतपुरी नामल, मात्राम, एन्यलपुर, अकारा, उत्तर प्रशेत भागत, 202006 में रिश्म शेवमल नाम (धार्ग प्रोप्त में): मंत्रीय का प्रकार: भूमि क्षेत्र, मिमित क्षेत्र, असमेत ग्रीम्य मंत्रीत क्षेत्र 785.00,044.00,755.00	२, 2085785.005-(राममे चीम गावा विभागो राजर साम भी विश्वामी भाव बाव)	10-10 2024	15- 17 ⁻ 17 2024
बी नरेन्द्र कुमा लॉबर, श्रीमते नेतम शर्मा, अमा फूट प्रीडक्ट्स, ग्रीमीक्ट में IL10359224	बारास संबर 112, आहम - वी का असरत भाग, पार्वट संवर थी-57, करास संवर 28-41 822 पर निर्मित, भीक बाहुए कांक राज्यकी तिथी, तस्योत और विका अंतरा, उत्तर प्रदेश, भाग, 282001 में रिपन बेउपल मान (को पीट मी) संचीर का प्रकार चुकि क्षेत्र, निर्मित बीव, कारपेट चीराव संचीर क्षेत्र। 450.00.450.00.383.50	त्र. 1797796.00 - (त्र. समह सम्बद्ध समान्ते हमार स्थल पर्वे विश्वपन्ते मात्र)	09-10 2024	15- 19701 2024

कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8-(1)

कब्जा सूचना एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएन:U67100MH2007PLC174759 रिटेल सेंट्रल एवं रजि. कार्यालयः एडलवाइस हाउस, ऑफसी एसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098

जबिक, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत और (नियम 3) के साथ पिठत धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने नीचे उल्लिखित एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा

इसके बाद, यहाँ उल्लिखित असाइनर ने एडलवाइस एसेट रिकस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को भी वित्तीय परिसंपत्तियों को अपने स्वयं के रूप मेंध्विभिन्न ट्रस्टियों की अपनी क्षमता में कार्य करते हुए (जिसे बाद में 'ईएआरसी' के रूप में संदर्भित किया गया है) असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से सौंपा है। असाइनमेंट एग्रीमेंट के अनुसार, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत, ईएआरसी असाइनर के स्थान पर आ गया है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में अंतर्निहित सुरक्षा हितों, गारंटियों, प्रतिज्ञाओं के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में असाइनर के सभी अधिकार, शीर्षक

और हित ईएआरसी में निहित हैं और ईएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करता है। ऋणकर्ता द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, ऋणकर्ता तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ प्रत्येक संपत्ति के सामने उल्लिखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो स्ररक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जो नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के

क्रं. स.	समनुदेशक का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम और सह—उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना की राशि और तारीख	कब्जा की तिथि	कब्जे की स्थिति
1.	दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	EARC TRUST SC-371	1691652	सतप्रीत सिंह (उधारकर्ता) और हरजीत कौर (सह–उधारकर्ता)	रूप्ये 29,77,213.18/— और 12.10.2020	16.07.2024	प्रतीकात्मक कब्जा

संपत्ति का विवरणः— गिरवी रखी गई संपत्ति का पूरा टुकड़ा/मकान नंबर—11 खसरा नंबर 137//11,1381/5,1361/15,138//9/1,9/2 पतंग 3 रकबा 7–11,138/4,रकबा 8–0 पतंग 2 रकबा 15 कनाल 11,10 5 मरले का 3/205 केएच खेवात/खातैनी 🛮 822/1112,826/1125 वार्ड नंबर वाका बरारा (203) में स्थित, फ्लाई ओवर के पास और सामने बिलीवर चर्च, जिला बाला, हरियाणा—133205 बिक्री विलेख संख्या 1769 के अनुसार, बिक्री विलेख दिनांक 8/3/2017 के अनुसार पंजीकृत अम्बाला।

हस्ता / – प्राधिकृत अधिकारी एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

ह. - अधिकृत प्राधिकारी, कृते अर्थआईएकएल होन नाव्योग लिमेटा

⊕ Edelweiss

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल वैंक) रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम २००२ की धारा १३ (२) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र अधोहरताक्षरकर्ता एयू रमाल फाईनेंस बैंक लिमिटेंड के प्राधिकृत अधिकारी है।''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुन्गंठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की 'भारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्त्रियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों / सह-ऋणीयों / गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी / ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेपित किये थे. नोटिस के अनसार पदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आरितयों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि नविष्य के ब्याज तथा खर्चों एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के मीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिमृत आरितयों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चों प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय मुगतान करके मुक्त करवा सकते हैं।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/ बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की विनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण		
(खाता सं.) L9001060118970992 व L9001061121804792 एन पी इन्जिनियरिंग वर्क्स (ऋणी), श्रीमती नथुनी पंडित (सह-ऋणी), महेश कुमार (सह-ऋणी), सुरेश कुमार (सह-ऋणी)	15 जून 2024 र 1560293/- रु. पन्द्रह लाख साठ हजार दो सौ तिरानबे मात्र व र 158404/- रु. एक लाख अट्ठावन हजार चार सौ चार मात्रदिनांक 11 जून 2024 तक	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 85 25 86 21, प्लॉट नं. 4, गांव-बल्लभगढ, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्रफल 113.3 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060720276928 विकास कुमार (ऋणी), राकेश (सह-ऋणी), पूजा एन्टरप्राइजेज (सह-ऋणी), नरेन्द्र शर्मा (सह-ऋणी), अजय सिंह (सह-ऋणी)	14 जून 2024 ₹ 1242830/- रु. बारह लाख बयालीस हजार आठ सौ. तीस मात्र दिनांक 11 जून 2024 तक	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 105, प्लॉट नं. 488 बी, ब्लॉक बी, गांव-संगम विहार, हरबस्त धरौटी खुर्द, जिला-गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल 50 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060124863721 यूनाइट डील्स सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जरिए डायरेक्टर सुरजीत राउत (ऋणी), सुरजीत राउत (सह-ऋणी), अभिषेक भट्टाचार्य (सह-ऋणी)	21 जून 2024 ₹ 1404032/- रु. चौदह लाख चार हजार बत्तीस मात्र दिनांक 21 जून 2024 तक	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 82/22, प्लॉट नं. 33, फ्लेट नं. जी-1, आरजेड जी-33, ग्राउण्ड फ्लोर बिना छत के, पालम महावीर एनक्लेव, द्वारका दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दिल्ली क्षेत्रफल 80 वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060131669717 सनत रॉय (ऋणी) , सीरम राय (सह-ऋणी)	14 जून 2024 रै 695998/- रु. छः लाख पद्मानबे हजार नो सौ अट्ठानबे मात्र दिनांक 11 जून 2024 तक	सम्पत्ति रिथत खसरा नं. ४८२ एमआई, गांव हत्योनी, परगना दावरी, तहसील-दावरी, जिला-गीतमबुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश क्षेत्रफल ४७ वर्ग गज		
(खाता सं.) L9001060131684969 आर.के. ट्रांसपोर्ट जरिए प्रोपराईट सचिन (ऋणी), योगेश कुमार (सह-ऋणी), श्रीमती राजन (सह-ऋणी), सचिन (सह-ऋणी), राजेन्द्र कुमार (सह-ऋणी), नरेश (सह-ऋणी)	21 जून 2024 हैं 5006903/- रु. पंचास लाख छः हजार नो सौ तीन मात्र दिनांक 20 जून 2024 तक	सम्पत्ति स्थित खेवत/खाता नं. 92/97, मू नं. 32, किला नं. 21/2/1 (1-00), मौजा मोहम्मदपुर, सब तहसील-कादीपुर, जिला-गुरुग्राम, हरियाणा क्षेत्रफल 146 वर्ग गज		
स्थान : दिल्ली दिनांक : 18–0	7-2024 प्राधिकृ	त अधिकारी एयू रमॉल फाइनेंस बेंक लिमिटेड		

स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

पी.एन.सी. इन्फ्राटेक लि.

(CIN -L45201DL1999PLC195937) पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी प्लाजा, टॉवर-॥, चौधी मंत्रित, पुष्प विहार, सेक्टर-४, साक्षेत, नई दिस्सी-॥००१७ Website: www.pncinfratech.com, Email:complianceofficer@pncinfratech.com

शेयरधारकों को सुचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष

(" आईईपीएफ") प्राधिकरण को इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की घारा 124(5) के अनुसार, कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरित कोई भी धन, जो ऐसे हस्तांतरण की तारीख से सात (7) वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक या दावा न किया गया हो, उसे आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो अधिनियम की धारा 125 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक कोष है। इसके अलावा, समय-समय पर संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") के साथ पठित अधिनियम की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार, सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात (7) वर्ष या उससे अधिक समय तक अवैतनिक या दावा न किया गया हो, उन्हें भी कंपनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में

उन सभी शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर व्यक्तिगत संचार भेजा गया है जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों से यानी वित्त वर्ष 2016-17 से आज तक बिना दावे के पड़े हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ नियमों के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने योग्य हैं। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.pncinfratech.com/financials.html#unpaid-unclaimed-dividend, पर अपलोड किया गया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त संचार के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को वित्त वर्ष 2016-17 और उसके बाद के लिए दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए भेजें। यदि 20 अक्टूबर, 2024 तक लाभांश का दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी द्वारा बिना किसी और सूचना के, आईईपीएफ नियमों के तहत दिए गए तरीके से, अंतर्निहित शेयरों के साथ दावा न किए गए लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश और अंतर्निहित शेयर, जिसमें ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभ शामिल हैं, यदि कोई हो, एक बार आईईपीएफ में स्थानांतरित होने के बाद, केवल आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट यानी www.iepf.gov.in पर इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके वापस दावा किया जा सकता है। उपरोक्त के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारक कंपनी से complianceofficer@pncinfratech.com या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, 1 फ्लोर, एनएच–2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110 058, टेलीफोन: +91 11 49411000, ई-मेलः delhi@linkintime.co.in., वेबसाइटः www.linkintime.co.in, संपर्क कर सकते हैं:

निदेशक मंडल के आदेश से पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के लिए

दिनांकः 18 जुलाई, 2024 स्थानः आगरा

तपन जैन कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

एम. नं: ए22603

उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण निर्माण खण्ड-द्वितीय, ई०पी०आई०पी०, कासना, जिला-गौतमबुद्धनगर अस्पकालीन ई-निविदा सूचना

तदद्वारा सुचित किया जाता है कि प्राधिकरण के निम्न कार्यों हेत् सरकारी विभागों , पार्वजनिक उपक्रमाँ / निगमाँ / प्राधिकरणाँ / परिषदाँ / नगर निकार्यों में आई श्रेणी में पंजीकृत फर्मों / तेकेदारों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा के माध्यम से आमन्त्रित की

इ.सं.	कार्य का नाम	निविदा का प्रकार	कार्य की स संव (सास
1.	Construction of 2 Nos. Entry gate at I.A. Surajpur Site-5, Distt. G.B. Nagar.	अल्पकालीन	54.74

।परोक्त अल्पकालीन निविदा दिनांक 19:07 2024 की पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 26:07:2024 को अपरान्ह 5:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है. प्राप्त ई—निविदा को दिनाक 27.07.2024 को पूर्वोन्ह 11:00 बजे या इसके पश्चात खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा अपलोड किये गये समस्त शपथ प्रपत्रों की मूल प्रतियों को पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से दिनांक 29.07.2024 की साथ 5:00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त कराना अनिवार्य है अन्यथा निविदा को Consider नहीं किया जायेगा।

नोंट:- निविदा सम्बन्धी विरत्त जानकारी website: www.upsidc.com पर रिथत ई-लिंक एवं युपीएलसी की website: www.etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है । वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), उ०प्र०रा०औ०वि०प्रा० निर्माण सण्ड-2, कासना गौतमबुद्ध नगर

भारतीय स्टट बेक आर.ए.सी.पी.सी.- सेक्टर बी, निकट राम राम बैंक चौराहा, अलीगंज लखनऊ

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम २००२ (सरफेसी एक्ट २००२) की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनः निर्माण तथा प्रवर्तन की घारा 13 (2) के तहत

एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि निम्न ऋणकर्ता ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई लोन फेसिलिटी की प्रमुख ऋणराशि व ब्याज का वापिस भुगतान नहीं किया है और उक्त लोन गैर-निष्पादित परिसंपतियां (एनपीए) बन गई है। प्रतिभृति ब्याज अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण व पुनःनिर्माण और प्रवर्तन की धारा 13 (2) के तहत सुचना उनके अंतिम ज्ञात पतों पर जारी की गई थी परंतु ये सूचनाएं बिना सर्व हुए ही वापिस लीटा दी गई हैं अतः अब उन्हें एतदद्वारा इसके बारे में जन सूचना के जरिये सुचित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता/ गारंटर का नाम	संपत्ति का विवरण/ प्रवर्तित की जाने वाली प्रत्याभूतित परिसंपत्तियों का पता	सूचना की तिथि	एनपीए की तिथि	बकाया राशि (सूचना की तिथि के अनुसार)
	श्रीमती शिश प्रिया सिंह 1. पलैट नं. 1904, 19वीं मंजिल, टावर- टी-19, एम्ब्रोसिया, ब्लॉक-ई, जीएच-4, ओमेक्स रेजीडेंसी II, लखनऊ-226010 2. म.नं. डी/एस-344 सेक्टर-डी, एलडीए कॉलोनी,	भाग । (चल संपत्तियों का दृष्टिबंचक): NIL भाग ॥ (अचल संपत्तियों का साम्यिक बंधक): फ्लैट नं. 1904, 19वीं मंजिल, टावर-टी-19, एम्ब्रोसिया, ब्लॉक-ई, जीएच-4, ओमेक्स रेजीडेंसी ॥, लखनऊ-226010, क्षेत्रफल: 146.32 वर्ग मी., चौहद्दी:- पूर्वः खुला आकाश, पश्चिमः खुला आकाश, उत्तरः गलियारा, दक्षिणः खुला आकाश		04.07.2024	र 41,97,312/- (रूपये इकतालीस लाख सत्तानवे हजार तीन सौ बारह मात्र) दिनांक 05.07.2024 तक

नीटिस की प्रतिस्थापन सेवा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त ऋणकर्ताओं व उनके गारंटरों को, (जब भी लागु हो) इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर बकाया राशि को लीटाने के लिए कहा जाता है, अन्यथा हम प्रतिभृति व्याज अधिनियम, 2002 की वित्तीय परिसंपतियों के प्रतिभृतिकरण व पुनः निर्माण और प्रवर्तन की धारा 13 की उपचारा (4) के तहत इस सुचना की तिथि से 60 दिन समाप्त होने के बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे।

दिनांक : 17.07.2024, स्यान : लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF CONTINENTAL CONTROLS LIMITED

Corporate Identification Number: L31909MH1995PLC086040: Registered Office: Gala No. 202, Krishna House, Shallesh Udyog Nagar, Opposite Nicholas Garage, Sativali Road, Waliv, Vasai (East) - 401208, Thane, Maharashtra; Contact Number: 0250-2454945, 2456946; Website: www.newkrishna.com; Email Address: info@continentalcontrols.net

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 15,98,027 OFFER SHARES, REPRESENTING 26.00% OF THE VOTING SHARE CAPITAL OF CONTINENTAL CONTROLS LIMITED, AT AN OFFER PRICE OF ₹4.00/- PER OFFER SHARE PAYBLE IN CASH, MADE BY ONELIFE CAPITAL ADVISORS LIMITED. THE ACQUIRER, IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATIONS 3 (1) AND 4, AND SUCH OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011. AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO.

This Post-Offer Public Announcement is being issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offe (Manager'), on behalf of the Acquirer, in connection with the Offer made by the Acquirer to the Public Shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18 (12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations ('Post-Offer Public Announcement')

This Post-Offer Public Announcement should be read in continuation of, and in conjunction with the: a) Public Announcement dated Wednesday, March 06, 2024 ("Public Announcement"), (b) Detailed Public Statement dated Monday, March 11, 2024, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Tuesday, March 12, 2024, in the following newspapers, in Financial Expres (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) (Mumbai Edition); (Newspapers') ('Detailed Public Statement'), (c) Draft Letter of Offer dated Tuesday, March 19, 2024 ('Draft Letter of Offer'), (d) Letter of Offer dated Thursday, June 20, 2024, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement (Letter of Offer), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Wednesday, June 26, 2024, and published in the Newspapers on Thursday, June 27, 2024 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company'), Pre-Offer Public Announcement which was approved on Thursday, June 27, 2024, which has been published in the Newspaper. on Friday, June 28, 2024 (Pre-Offer Public Announcement). The Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent

Directors of the Target Company, Pre-Offer Public Announcement, and this Post-Offer Public Announcement are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents' issued by the Manager on behalf of the Acquirer

The capitalized terms used but not defined in this this Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to such terms in the Offer Documents.

1.	Name of the Target Company	ny Continental Controls Limited, incorporated on March 02, 1995, under the provision of Companies Act, 1956, bearing Corporate Identification Numb L31909MH1995PLC086040', having its registered office located at Gala No.20 Krishna House, Shallesh Udyog Nagar, Opposite Nicholas Garage, Sativali Roa Walk, Vasai (East) – 401208, Thane, Maharashtra.		
2. Name of the Acquirer and PACs		Onelife Capital Advisors Limited, incorporated on August 31, 2007, under the provisions of Companies Act, 1956, bearing 'L74140MH2007PLC173660' having its registered office located at Plot No. A 356, Road No. 26, Wagle Industria Estate, MIDC, Thane (West) - 400604, Maharashtra, India.		
		There are no persons acting in concert with the Acqu	pirer for the purpose of this Offer.	
3.	Name of Manager to the Offer	Swaraj Shares and Securities Private Limited		
4.	Name of Registrar to the Offer	Purva Sharegistry (India) Private Limited:		
5.	Offer Details	Inches and the State of the control		
5.1	Date of Opening of the Offer	Monday, July 01, 2024		
5.2	Date of Closing of the Offer	Friday, July 12, 2024		
6.	Date of Payment of Consideration	The schedule date for settlement is Tuesday, July 23, 2024. However, since, there has been no tendering by the Public Shareholders for the said Open Offer, payment of consideration is not required.		
7.	Details of the Acquisition			
	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actuals	

5.1	Date of Opening of the Offer	Monday, July 01, 2024				
5.2	Date of Closing of the Offer	Friday, July 12, 2024				
6.	Date of Payment of Consideration	The schedule date for settlement is Tuesday, July 23, 2024. However, since, ther has been no tendering by the Public Shareholders for the said Open Offer, paymer of consideration is not required.				
7.	Details of the Acquisition		An and would be	2012	22.575	100
	Particulars	UUUUUM00-1790000011	the Offer Document acceptance in this Of		Actu	als
7.1	Offer Price	2000	₹4.00/-	01: 3	₹4.0	0/-
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	9	15,98,027		Nil	
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	iii	15,98,027		Not App	licable
7.4	Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	₹63,92,108.00/			Not Applicable	
7.5	Shareholding of the Acquirer before	the Share Purchas	e Agreement/ Public	Announcemen	t	
a)	Number of Equity Shares		Nil		Ni	N.
b)	% of fully diluted Equity Share capital	No	t Applicable		Not App	ficable
7.6	Sale Shares proposed to be acquire	d by way of Share Purchase Agreement				****
a)	Number of Equity Shares	181 550	15,09,604		15,09,604	
b)	% of fully diluted Equity Share capital	24.56%			24.56%	
7.7 Equity Shares acquired by way of Offer				0 0000000000000000000000000000000000000		
8)	Number of Equity Shares	1	15,98,027		Nil	
b)	% of fully diluted Equity Share capital	ON THE POST OF THE	26.00%		Not Applicable	
7.8	Equity Shares acquired after the Det	tailed Public Statem	nent			
a)	Number of Equity Shares acquired		Nil	2	Nit	
b)	Price of the Equity Shares acquired	No	Not Applicable		Not Applicable	
c)	% of Equity Shares acquired	No	t Applicable	100	Not Applicable	
7.9	Post-Offer shareholding of the Acqu	cquirer				200
a)	Number of Equity Shares	31,07,631			15,09,604	
b)	% of fully diluted Equity Share capital	oital 50.56% 2		24.50	5%	
7,10	Pre-Offer and Post-Offer shareholding of the Public Shareholders (other than the Acquirer)					erota t
	Particulars	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	P	ost-Offer
8)	Number of Equity Shares	46,36,352	30,38,325	46,36,352	F FA	6,36,352

 b) % of fully diluted Equity Share capital 75.44% 49.44% 75.44% 75,44% 8. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Post-Offer Public Announcement and for its obligations

specified under SEBI (SAST) Regulations. The Acquirer will consummate the Share Purchase Agreement transaction in accordance with the provisions of Regulations 22 (1), and 22 (3) of the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification of itself as the promoter of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including subsequent amendments thereto ("SEBI (LODR) Regulations").

10. A copy of this Post-Offer Public Announcement will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in. BSE Limited at www.bseindia.com, and the registered office of the Target Company.

11. The capitalized terms used in this Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer, unless otherwise specified.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER

SWARAJ Swaraj Shares and Securities Private Limited

Corporate Identification Number: U51101WB2000PTC092621 Principal Place of Business: Unit No. 304, A. Wing, 215 Altium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai-400093,

Contact Person: Pankita Patel/ Tanmoy Banerjee Contact Number: +91-22-89649999

Email Address: takeover@swarajshares.com

Investor grievance Email Address: investor relations@swarajshares.com SEBI Registration Number: INM00012980 Validity: Permanent

Date: Thursday, July 18, 2024 Place: Mumbai

Prabhakara Naig DIN: 00716975 Executive Director-Chairperson related to

On behalf of the Board of the Directors

Onelife Capital Advisors Limited

सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सवुक्कू शंकर की रिहाई का आदेश दिया

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 18 जुलाई।

माग

सूचना

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। चेन्नई की पुलिस ने उन्हें मई से गुंडा बताकर जेल में डाल रखा था। न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने शंकर को गिरफ्तार करने की वजह पूछी। साथ ही मद्रास हाई कोर्ट के बारे में भी टिप्पणी की उसने निजी स्वतंत्रता के अहम मामले को चलताऊ ढंग से लिया। पीठ ने यह आदेश भी दिया कि अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली शंकर की याचिका पर मद्रास हाई

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय में

परिवर्तन का विज्ञापन (एलएलपी नियम,

2009 के नियम 17 (4) के अनुसार)

एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13

की उपधारा (3) और एलएलपी नियम,

2009 के नियम 17(4) के मामले में

ई.एम.टी.आर.सी. कंसल्टेंट्स एलएलपी

(LLPIN: ACH-9348) जिसका पंजीकृत

कार्यालय टावर नंबर 5, फ्लैट नंबर 102

(एफ.एफ.), सीडब्ल्यूजी विलेज, एनएच-

24, अक्षरधाम, नई दिल्ली (पूर्व), 110092 में है, के मामले में

आम जनता को सामान्य सूचना दिया जाता है कि

एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के

तहत संबंधित प्राधिकारी को एक आवेदन करने

का प्रस्ताव करता है, जिसमें एलएलपी का

पंजीकृत कार्यालय "**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र**

दिल्ली" से "छत्तीसगढ़ राज्य" में स्थानांतरित

करने के लिए 10 जुलाई 2024 को आयोजित

एक सामान्य बैठक में अनुमोदन के संदर्भ

एलएलपी अनुबंध में बदलाव की पृष्टि की मांग

एलएलपी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित

स्थानांतरण से यदि किसी भी व्यक्ति का हित

प्रभावित होता है या होने की संभावना है तो वो

व्यक्ति एलएलपी को सचित कर सकता है या

एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और

विरोध का कारन उल्लेखित हो उसे इस सूचना

के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर

पंजीकृत कार्यालय में और मूल रूप से संबंधित

प्राधिकारी को भेजना चाहिए और एक प्रति

याचिकाकर्ता को एलएलपी के पंजीकृत

कार्यालय में भेजनी चाहिए जैसा कि ऊपर

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

ई.एम.टी.आर.सी. कंसल्टेंट्स एलएलपी

की जाती है।

बताया गया है।

कोर्ट सुनवाई करेगा। तब तक शंकर अंतरिम जमानत पर रहेंगे। पीठ ने कहा कि वादी और राज्य सरकार दोनों ने ही कहा है कि वे हाई कोर्ट में मामले का उल्लेख करेंगे ताकि सुनवाई सोमवार को हो सके।

पीठ ने उम्मीद जताई कि शंकर की गिरफ्तारी एहतियातन होने के कारण हाई कोर्ट सुनवाई जल्दी पूरी करेगा। इससे पहले पीठ ने तमिलनाडु की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा से सवाल किया था कि शंकर की एहतियातन गिरफ्तारी का कारण क्या था।जजों ने सिद्धार्थ लूथरा से पूछा कि क्या शंकर देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा हैं। शंकर की मां ए कमला की तरफ से दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह आदेश दिया।

तमिलनाडु : बसपा नेता आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में तीन और संदिग्ध गिरफ्तार

चेन्नई, 18 जुलाई (भाषा)।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की तमिलनाडू इकाई के प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में एक मौजूद आरोपियों के महिला वकील सहित तीन कबुलनामे व वित्तीय और लोगों को गिरफ्तार किया लेन-देन के आधार पर गया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। ये गिरफ्तारियां हुईं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस हिरासत में मौजूद आरोपियों के कबूलनामे और फोन काल के रेकार्ड व वित्तीय लेन-देन के आधार पर बुधवार को ये गिरफ्तारियां हुईं। इस मामले में 11 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उनमें से एक मुख्य संदिग्ध थिरुवेंगदम 14 जुलाई को पुलिस की गोली का शिकार हो गया था। आर्मस्ट्रांग की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद करने के लिए पुलिस थिरुवेंगदम को एक स्थान पर ले गयी थी, जहां पर उसने पुलिसकर्मियों पर हमला कर भागने का प्रयास किया था। बसपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्राना की पांच जुलाई को यहां उनके

निर्माणाधीन घर के पास बाइक सवार बदमाशों ने जयंत कुमार मोइत्रा हत्या कर दी थी।

स्थान : दिल्ली नामित भागीदार दिनांक: 18.07.2024 (DPIN:01259806) 🕸 इण्डियन ओवरसीज़ बेंक

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग केंद्रीय कार्यालयं : 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002 इण्डियन ओवरसीज बैंक निम्नलिखित के लिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित करता है

गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल - बायोमेट्रिक डिवाइस और थर्मल प्रिंटर के साथ एकीकृत 2000 एंड्रॉइड टैब उपकरणों की आपूर्ति और रखरखाव बोली संख्या : जीईएम/ 2024/ बी/5088654 दिनांकित : 25.06.2024

उपर्यक्त निविदा के लिए जीईएम दस्तावेज उल्लिखित वेबसाइटों www.iob.in एवं www.gem.gov.in पर उपलब्ध है, जहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है । नेविदा का विवरण और भविष्य में किए जाने वाले किसी भी संशोधन

के लिए, उक्त वेबसाइट www.gem.gov.in का संदर्भ लेते रहें ।

हादसे बाइक सवार की मौत, पत्नी घायल गोंदिया, 18

(**भाषा**)। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में गुरुवार को एक स्कूल बस की टक्कर से बाइक पर संवार 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई।

एकअधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाइक सवार की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

अंसल बिल्डवेल लि.

पंजीकृत कार्यालय : 118, ऊपरी प्रथम तल, प्रकाश दीप भवन, 7, टॉल्स्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 **फोन** : 23353051, 23353052, इमिल : info@ansalabl.com वेबसाइट : www.ansalabl.com

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनिमय 2015 के अधिनियम 29 एवं 47 के अनुपालन में, कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार,13 अगस्त, 2024 को कान्फ्रेंस रूम, 118, यूएफएफ, प्रकाशदीप भवन, 7, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही एवं तीन माह के स्टैंडएलोन एवं समेकित,अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर उसे अनुमोदित किया जाऐगा।

यह जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.ansalabl.com के साथ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> पर भी उपलब्ध है | अंसल बिल्डवेल लि. के लिए

हस्ता./-(अशोक बाब्) वरि.वी.पी. एवं कम्पनी सचिव

दिनांक: 11.07.2024

स्थान : नई दिल्ली

FCS No.: 2328 रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

RELIANCE पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, नॉर्थ साइड, आर—टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063 सरफॉएसि अधिनियम २००२ की धारा 13 (२) के अंतर्गत मांग सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं ने शामराव विद्वल को-ऑपरेटिव बैंक से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं। चूंकि उधारकर्ता वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे हैं, अतएव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 01.07.2013 को शामराव विद्वल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा ऋण खाते को अनिष्पादनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। शामराव विट्ठल को-ऑपरेटिव बैंक ने असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 29.03.2017 के माध्यम से निम्नलिखित उधारकर्ताओं की वित्तीय परिसंपत्तियों को उनके सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित के साथ-साथ सभी अंतर्निहित प्रतिभूति हितों के साथ एसवीसी आरएआरसी 033 ट्रस्ट के ट्रस्टी रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में

उक्त एसाइंमेंट के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मांग सूचनायें दिनांक 28.06.2024 पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी थीं, जिनमें उधारकर्ताओं से सूचना की तिथि से 60 दिनों की एकावधि के अंदर उक्त सूचनाओं में उल्लिखित संपूर्ण बकाया राशि का राशि पर नियत भावी ब्याज के साथ प्रतिभगतान करने को कहा गया था। हालाँकि, चुंकि नीचे उल्लिखित कुछ पक्षों को मांग सूचनायें नहीं भेजी जा सकीं, अतएव अब उन सूचनाओं को सूचना विवरण निम्नानुसार हैं :

उधारकर्ता / गारंटरों / बंधककर्ताओं इत्यादि के नाम एवं पते

।. मैसर्स एसोसिएटेड स्टील कंसोर्टियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता / बंधककर्ता) रजिस्टर कार्यालय का पता: 114. श्रीजी एन्क्लेव, प्लॉट नं. 18 सेक्टर-13. खारघर, नवी मंबई-410210, अन्य पता यहां पर भी : 319, अग्रवाल मिलेनियम टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, **अन्य पता यहां पर भी :** प्लॉट नं. 1106, कलंबोली वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन कलंबोली, नवी मुंबई — 410218, अन्य पता यहां पर भी : प्लॉट नं. 41-ए, सिलपहाड़ी, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, रायपूर, ग्राम – बिल्हा, तहसील – बिलासपूर, जिला – छत्तीसगढ़–492001 . मैसर्स नताशा धीमान (बंधककर्ता 🖊 गारंटर) (अपनी स्वामिनी श्रीमती नताशा धीमान के माध्यम से), पता :- प्लॉट नं. 41-ए, सिलपहाड़ी, जिला-बिलासपुर, अधिमापन 5.00 एकड़, जो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, रायपुर, ग्राम – बिल्हा, तहसील – बिलासपुर, जिला – छत्तीसगढ़ – 492001 में स्थित है। अन्य पता यहां पर भी: ए3/219, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110063

. **श्रीमती अर्चना उत्पल कुमार श्रीवास्तव (निदेशक / गारंटर / साझीदार) :-** ए–703, अशोका रेजीडेंसी, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर-12, खारघर, नवी मुंबई-410201, अन्य पता यहां पर भी: 2/371, सेक्टर-2सी, बी. एस. सिटी, बोकारो-427001 . **श्री राकेश गुरुदेव धीमान (निदेशक / गारंटर / साझीदार) :- पता** : ए३/२१९, पश्चिम विहार, नई

5. **श्री उत्पल कुमार उदय कुमार सिन्हा (निदेशक / गारंटर / साझीदार) :- पता** : ए-703. अशोका रेजीडेंसी, प्लॉट नंबर ३, सेक्टर–12, खारघर, नवी मुंबई–410201

बकाया राशि (रु. में) : रु. ६,95,11,515.45/— (रुपये छह करोड़ पिचानबे लाख ग्यारह हजार पांच सौ पंद्रह और पैंतालीस पैसे मात्र) 31-05-2024 के अनुसार, जो आपके द्वारा देय है।

प्रतिभूत चल / अचल संपत्तियों के विवरण :--

प्राथमिक प्रतिभृति : प्लॉट क्रमांक ४१-ए धारक भूमि, जो सिलापहाड़ी, जिला- बिलासपुर में, 5.00 एकड़ क्षेत्रफल वाली भूमि जो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड रायपुर, ग्राम बिल्हा,

कंसोर्टियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है। सीमाएं- पूर्व- प्लॉट क्रमांक 41-बी, पश्चिम-निजी भूमि, उत्तर— 100' चौड़ी सड़क, दक्षिण— हाई टेंशन लाइन के लिये सीएसआईडीसी की आरक्षित खुली भूमि।

यदि 60 दिनों की एकावधि के अंदर उपरोक्त संपूर्ण बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल होते हैं तं

तहसील–बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़–492001 में स्थित तथा उस पर निर्मित / निर्मित

होने वाले निर्माण / संरचना के साथ है, जिसका स्वामित्व और अधिग्रहण मैसर्स एसोसिएटेड स्टील

अधोहस्ताक्षरकर्ता सरफॉएसि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभत परिसंपत्तियों को प्रवर्तित करने कृपया इस बिंदू पर ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आपको यहां इसमें ऊपर संदर्भित, किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा क्रय–विक्रय करने अथवा

हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। स्थान : दिल्ली

दिनांक : 19-07-2024

बेटे से वीडियो काल पर बात करने के बाद जान दी

व्यक्ति ने मुंबई, 18 जुलाई (भाषा)। मुंबई के

एक व्यवसायी ने अपने 22 वर्षीय बेटे के साथ वाट्सऐप वीडियो काल कर बात करने के बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि व्यक्ति ने कॉल पर अपने बेटे

से आत्महत्या

करने की बात

कही थी। अधिकारी ने कहा कि घाटकोपर निवासी भावेश नागिन सेठ ने पैसों की तंगी के कारण यह कदम उठाया होगा। एक नोट मिला है, जिसमें सेठ ने अपने बेटे के लिए लिखा-सारी बेटा, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। परिवार का ध्यान रखना। घटना बुधवार

अपराह्न सवा

तीन बजे हुई।